



# BULANDSHAHR POLICE



दिनांक 13 जुलाई 2022

थाना बीबीनगर

## हत्या की योजना बनाते टॉप-10 अपराधी सहित 02 गिरफ्तार, कब्जे से अवैध असलहा, कारतूस बरामद।

जनपद में अपराधों पर अंकुश लगाये जाने हेतु अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के तहत आज दिनांक 13.07.2022 को थाना बीबीनगर पुलिस द्वारा ग्राम सालाबाद धुमैडा निवासी विक्रान्त पुत्र जगपाल की हत्या की योजना बनाकर हत्या का प्रयास करने वाले टॉप-10 अपराधी अभिषेक फौजी व उसके साथी अरविन्द उर्फ पपलू को मुखबिर की सूचना पर ग्राम तिबडा जाने वाली सड़क से हत्या की योजना को विफल करते हुए गिरफ्तार किया गया, जिनके कब्जे से अवैध असलहा व कारतूस बरामद हुए हैं।

उल्लेखनीय है कि अभियुक्तों द्वारा पुरानी रंजिश के कारण दिनांक 11-07-2022 को विक्रान्त पर जान से मारने की नियत से फायरिंग की गयी थी जिसके सम्बन्ध में थाना बीबीनगर पर मु0अ0स0 138/22 धारा 307/504/506/120B भादवि पंजीकृत हैं तथा इससे पूर्व भी अभियुक्त अभिषेक फौजी द्वारा विक्रान्त की हत्या प्रयास किया गया था जिसके सम्बन्ध में थाना बीबीनगर पर मु0अ0स0 38/22 धारा 307/504/506 भादवि पंजीकृत है। अभियुक्तों की गिरफ्तारी एवं बरामदगी के संबंध में थाना बीबीनगर पर अग्रिम वैधानिक कार्यवाही करते हुए अभियुक्तों को न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया है।

### गिरफ्तार अभियुक्तों का नाम पता-

1. अभिषेक फौजी पुत्र मुकेश निवासी ग्राम सालाबाद धुमैडा थाना बीबीनगर जनपद बुलन्दशहर
2. अरविन्द उर्फ पपलू पुत्र महेन्द्र निवासी उपरोक्त

### बरामदगी-

1. 02 अवैध तमंचे 315 बोर मय 04 जिन्दा कारतूस

### अभियुक्त अभिषेक का आपराधिक इतिहास-

1. मु0अ0सं0 38/22 धारा 504/506/307 भादवि थाना बीबीनगर जनपद बुलन्दशहर
2. मु0अ0सं0-137/22 धारा 504/506 भादवि थाना बीबीनगर जनपद बुलन्दशहर
3. मु0अ0सं0-138/22 धारा 307/504/506/120बी भादवि थाना बीबीनगर जनपद बुलन्दशहर
4. मु0अ0सं0-142/22 धारा 3/25 शस्त्र अधि0 थाना बीबीनगर जनपद बुलन्दशहर

### अभियुक्त अरविन्द उर्फ पपलू का आपराधिक इतिहास-

2. मु0अ0सं0-137/22 धारा 504/506 भादवि थाना बीबीनगर जनपद बुलन्दशहर
3. मु0अ0सं0-138/22 धारा 307/504/506/120बी भादवि थाना बीबीनगर जनपद बुलन्दशहर
4. मु0अ0सं0-141/22 धारा 3/25 शस्त्र अधि0 थाना बीबीनगर जनपद बुलन्दशहर

### गिरफ्तार करने वाली टीम

1. श्री जितेन्द्र सिंह थाना प्रभारी बीबीनगर
2. व0उ0नि0 अशोक कुमार, उ0नि0 श्री ऋषिपाल सिंह
2. का0 सुखदेव, का0 अरविन्द सोम, का0 अंकुर मलिक



मीडिया सैल बुलन्दशहर